

अप्राप्ति विभा जाला हें डि इस मारी पुस्तक मंमरीन  
 उडाया अंशित उल 200 एड रंग पन्ना हें यह मारी  
 अल मारी मारीउमाल दफापर अमिफिल गामरीण मारी  
 निमाउ मारी अजर अमिता गहिला मारी निमि विभा  
 जाला हें

*Gmm 15/8*  
 कांकेपालक अभियन्ता  
 ग्रासम काय विभाग  
 काय प्रमडल, मधुवणी  
 15/09/20

Schedule XLV- Form No.- 134.

\_\_\_\_\_DIVISIUON

\_\_\_\_\_SUB-DIVISION

MEASUREMENT BOOK

No. 2362

Name of officer \_\_\_\_\_

Date of fist entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

should be provided with an index which should be  
 kept up to date.  
 Sch. XLV.- Form No.- 134.

Name of the work-  
 Situation of work-  
 Agency by which work is executed-  
 Date of measurement-  
 No. and date of agreement-  
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work)

01

| Particulars                                                                                                     | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                                                                                 | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| 1st On A/c Bill                                                                                                 |                               |    |    |    |                  |
| Name of work: - Construction of 2 road from Lake in Jagang to Maran Jagang Hala under M.M.G.Sy (S.C.) L=1.32 km |                               |    |    |    |                  |
| Name of Agency: - Binleah Kir Constr Art Ltd.                                                                   |                               |    |    |    |                  |
| At+to - Rawang, Sarawak                                                                                         |                               |    |    |    |                  |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Agg No - 27                     | S.B.D/2020-21                    |
| Agg value -                     | Rs 86,729.00 = 0                 |
|                                 | Rs 1310,048 = 0                  |
|                                 | Rs 9982,952 = 0                  |
| Date of start - 23/06/2020      |                                  |
| Date of Completion - 22/06/2021 |                                  |
| Work done                       |                                  |
| 1) Clearing & Grubbing road     |                                  |
| Landed                          |                                  |
| 5x30.00                         | $\frac{4.075.00}{2} = 525.00m^2$ |
| 5x30.00                         | $\frac{4.075.00}{2} = 525.00m^2$ |
| 5x30.00                         | $\frac{4.075.00}{2} = 525.00m^2$ |
| 5x30.00                         | $\frac{4.075.00}{2} = 525.00m^2$ |
| 5x30.00                         | $\frac{4.075.00}{2} = 525.00m^2$ |

Continuation

c/02625 0 m<sup>2</sup>

| Particulars                                                  | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                              | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| 24) Bo. Dry hot the wall & floor                             |                               |    |    |    |                  |
| Corr. on BT & LC —                                           |                               |    |    |    |                  |
| Qty m/c on BT P (37) & (24)                                  |                               |    |    |    |                  |
| 253.60 m <sup>2</sup> @ Rs 7.35 = 14/m <sup>2</sup>          |                               |    |    |    |                  |
|                                                              |                               |    |    |    | Rs 1865.82 =     |
| 25) Bo. Dry hot the wall with plaster                        |                               |    |    |    |                  |
| Qty m/c on BT P (37) & (25)                                  |                               |    |    |    |                  |
| 38.34 m <sup>2</sup> @ Rs 97 = 18/m <sup>2</sup> — Rs 3726 = |                               |    |    |    |                  |
|                                                              |                               |    |    |    | Rs 7391.257 =    |
| Add 12% GST —                                                |                               |    |    |    | Rs 8869.512 =    |
| Add 1% L. Cess —                                             |                               |    |    |    | Rs 73913 =       |
|                                                              |                               |    |    |    | Rs 89,59,121 =   |
|                                                              |                               |    |    |    | (A)              |
| Add. B. Fee —                                                |                               |    |    |    |                  |

|                                                                     |  |  |  |  |             |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| 1) Bo. Pcc Mr 15 in fund —                                          |  |  |  |  |             |
| Qty m/c on BT P (40) & (41)                                         |  |  |  |  |             |
| 13.79 m <sup>3</sup> @ Rs 465 = 44/10 m <sup>3</sup> — Rs 642 =     |  |  |  |  |             |
| 2) Bo. Pcc / Rec Mr 20 —                                            |  |  |  |  |             |
| Qty m/c on BT P (40) & (41)                                         |  |  |  |  |             |
| 101.22 m <sup>3</sup> @ Rs 535 = 51/10 m <sup>3</sup> — Rs 54202 =  |  |  |  |  |             |
| 3) Corrt of Subankul - from Bumpit                                  |  |  |  |  |             |
| Qty m/c on BT P (41) & (42)                                         |  |  |  |  |             |
| 1845.59 m <sup>3</sup> @ Rs 23 = 75/10 m <sup>3</sup> — Rs 4389 =   |  |  |  |  |             |
| 4) Corrt of G.B. go - T —                                           |  |  |  |  |             |
| Qty m/c on BT P (41) & (42)                                         |  |  |  |  |             |
| 681.15 m <sup>3</sup> @ Rs 462 = 68/10 m <sup>3</sup> — Rs 31,515 = |  |  |  |  |             |
| 5) Bo. Dry & Mr 20 - III —                                          |  |  |  |  |             |
| Qty m/c on BT P (42) & (43) & (44)                                  |  |  |  |  |             |
| 361.81 m <sup>3</sup> @ Rs 637 = 37/10 m <sup>3</sup> — Rs 24,870 = |  |  |  |  |             |
| 6) Corrt of Unrauf - Pcc P —                                        |  |  |  |  |             |
| Qty m/c on BT P (42) & (43) & (44)                                  |  |  |  |  |             |
| 186.25 m <sup>3</sup> @ Rs 543 = 15/10 m <sup>3</sup> — Rs 10,117 = |  |  |  |  |             |
| Continuation                                                        |  |  |  |  | Rs 76,953 = |



| Particulars                                         | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                     | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| 7) Concrete Subgrade & B.S.                         |                               |    |    |    |                  |
| Quantity m <sup>2</sup> P-42 of 16                  |                               |    |    |    |                  |
| 626.79 m <sup>2</sup> @ Rs 23272/100m <sup>2</sup>  |                               |    |    |    | Rs 1491.20       |
| 8) Road Layer M.S.S.                                |                               |    |    |    |                  |
| Quantity P-43 of 19                                 |                               |    |    |    |                  |
| 3667.05 m <sup>2</sup> @ Rs 12.69/100m <sup>2</sup> |                               |    |    |    | Rs 4653.20       |
| 9) Layer Brick Salf Layer                           |                               |    |    |    |                  |
| Quantity P-44 of 20                                 |                               |    |    |    |                  |
| 215 m <sup>2</sup> @ Rs 327.89/100m <sup>2</sup>    |                               |    |    |    | Rs 7050.20       |
|                                                     |                               |    |    |    | Rs 90,147.20     |
| Add Amount (A)                                      |                               |    |    |    | Rs 83,52,12.20   |
|                                                     |                               |    |    |    | Rs 84,42,268.20  |
| Less 2.631/A = 84.42                                |                               |    |    |    | Rs 22,20,32.20   |

Rs 82,20,236.20

Less provision for 52,44,109.20

Rs 29,76,127.20

Contractor to put  
work done under  
supervision of I

13/12/22  
I-3